

## प्रेस नोट

### दीव में हिन्दी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

#### समाहर्ता, दीव ने विजेता प्रतियोगियों को बॉटें पुरस्कार

दीव, दिनांक 14-9-2018. राजभाषा विभाग, दीव द्वारा आज सुबह 10.30 बजे दीव जिला के समग्र शिक्षा अभियान सभागार में हिन्दी दिवस एवं पखवाड़ा समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया ।

जिला के समाहर्ता श्री हेमंत कुमार, सरकारी पॉलिटेक्निक, दीव के प्राचार्य श्री नीतिन गजवानी, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य, श्री काम्बले, सहायक निदेशक श्री अंतर्यामी परिणा एवं श्री सुनील कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया । इसके बाद संगीत शिक्षक, श्री जिग्नेश तिलावट ने ईश्वर वंदना प्रस्तुत की । अपने स्वागत अभिभाषण में श्री अंतर्यामी परिणा, सहायक निदेशक ने हिन्दी दिवस एवं पखवाड़ा समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय समाहर्ता, दीव श्री हेमंत कुमार तथा मंचासीन अन्य अतिथियों तथा सभागार मे उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों व विद्यार्थियों के शाब्दिक स्वागत किया। तत्पश्चात हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने संबंधी ऐतिहासिक परिदृश्य पर प्रकाश ाला और वर्तमान स्थिति और इसके सुनहरे भविष्य पर भी विचार व्यक्त किये। आज हिन्दी अन्य भाषाओं की तुलना में किस पायदान पर खड़ी है, उसपर अपनी राय व्यक्त की ।

समारोह में हिन्दी पखवाड़ा के दौरान आयोजित 'देशभक्ति गीत प्रतियोगिता' में माध्यमिक वर्ग और उच्चतर माध्यमिक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करनेवाली जवाहर नवोदय विद्यालय, बुचरवाड़ा दीव की बालिकाओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए । बालिकाओं ने अपने सुरीले कंठ से गीत प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध करते हुए झूमने पर मजबूर कर दिया । इसी अवसर पर उच्चतर माध्यमिक वर्ग के वाक् प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करनेवाली सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दीव की छात्रा **रूपाली प्रवीण बारैया** ने "भारत के विकास में विद्यार्थियों की भूमिका" विषय पर अपना विचार व्यक्त किया । अपने भाषण देने की शैली और खूबसूरत भाषण से रूपाली प्रवीण ने सभागार मे मौजूद सभी का मन मोह लिया । सभी ने रूपाली प्रवीण को मुक्तकंठ से सराहा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 31/08/2018 से 14/09/2018 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया था, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए निबंध, शब्दावली ज्ञान, सामान्य ज्ञान, देशभक्ति गीत, मसौदा एवं टिप्पण लेखन, टंकण जैसी अलग-अलग कई प्रतियोगिताओं का अयोजन किया गया था । सभी सफल प्रतिभागियों को दीव जिला समाहर्ता एवं जिलाधीश श्री हेमंत कुमार, दीव पॉलिटेक्निक के प्राचार्य श्री नीतिन गजवानी एवं जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य श्री काम्बले द्वारा ट्रॉफी एवं प्रमाणपत्र प्रदान किये गए ।

हिन्दी दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय बुचरवाड़ा-दीव के प्राचार्य श्री काम्बले ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के संदर्भ में त्रिभाषा-सूत्र को अपनाने पर बल दिया । उन्होंने कार्यालयों व विद्यालयों के साथ-साथ आम बोलचाल में भी हिन्दी के प्रयोग की जोरदार वकालत की । जिला के समाहर्ता श्री हेमंत कुमार ने सर्वप्रथम सभी विजेताओं तथा पखवाड़ा के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ-चढकर भाग लेने के लिए सभी प्रतियोगियों का धन्यवाद किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में समाहर्ता महोदय ने हिन्दी भाषा की जीवंतता और इसके सरल व सहज प्रयोग पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है और इसका प्रयोग प्रशासन, शिक्षा, तकनीकी आदि हर स्तर पर संभव है । उन्होंने हिन्दी के चहुँमुखी विकास एवं दीव में इसके व्यापक प्रसार के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की । माननीय समाहर्ता ने इसी प्रकार के आयोजन वर्ष में और किए जाने हेतु राजभाषा विभाग को निर्देश दिए। उन्होने पखवाड़ा के सफल आयोजन पर राजभाषा विभाग के कर्मचारियों की खुले दिल से बधाई दी ।

अंत में श्री सुनील कुमार तिवारी, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने मुख्य अतिथियों एवं उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया तथा कहा कि समाहर्ता दीव के मार्गदर्शन में यह विधिवत कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। हिन्दी जन-जन की भाषा है और इसके प्रचार-प्रसार एवं समुचित प्रयोग से ही इसका विकास संभव हो पाएगा । पुरस्कार वितरण एवं पूरे कार्यक्रम में श्री सुनील कुमार तिवारी की भूमिका विशेष तौर से सराहनीय रही । इस पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बुचरवाड़ा की सहायक शिक्षिका सुश्री प्रतिभा गौरीशंकर स्मार्ट ने बखूबी किया। सभागार में उपस्थित सभी ने सहायक शिक्षिका प्रतिभा गौरीशंकर स्मार्ट की संचालन करने की कला को खूब सराहा। प्रतिभा गौरीशंकर स्मार्ट ने इससे पूर्व देशभक्ति गीत प्रतियोगिता एवं वाक् प्रतियोगिता का भी मंच संचालन कर राजभाषा विभाग, दीव का खुले दिल से सम्पूर्ण सहयोग दिया।

-----